



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 27, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2471/9-1-2020-23 टी0ए0-20

लखनऊ, 18 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-472

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्वारा जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ या सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत खखरेरु, जिला फतेहपुर के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत खखरेरू, जिला फतेहपुर का प्रादेशिक क्षेत्र

| दिशा | सीमावर्ती ग्रामों के नाम व उनकी गाटा संख्याएँ |
|--------|--|
| पूर्व | ग्राम खखरेरू- 1, 7, 680, 681, 687, 688, 689, 690, 691, 705, 706, 707, 708, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 732, 734, 736, 823, 824, 825, 826, 827, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378 |
| पश्चिम | ग्राम चचीड़ा-165, 164, 163, 162, 160, 159, 30, 29, 29/629, 29, 26, 25, 24, 23, 13, 1, 2, 4, 5, 6, 65, 84, 85, 86, 421, 424, 425, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 448, 459, 462, 463, 469, 468, 464, 500, 509, 511, 512, 515, 516, 519, 520, 522, 523/641, 523, 527, 528, 529, 627, 628, 619, 614, 613, 612, 606, 605 ग्राम सोथरापुर-156, 159, 166, 167, 168 |
| उत्तर | ग्राम दरियामऊ-1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 262, 263, 264, 265, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 286, 287, 288, 412, 414, 416, 417, 439, 440, 451, 452, 453, 458, 568, 567, 566, 565, 564, 563 ग्राम हरदासपुर सराफान-134, 133, 132, 131, 125, 104, 101, 2, 1, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 71, 72, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 504, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 641, 661 ग्राम रक्षपालपुर-173, 174, 175, 189, 198, 210, 211, 212, 214, 217, 228, 229, 230, 255, 261, 262, 264, 265, 423, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 457, 469, 461, 460, 462, 463, 464, 466, 467, 470, 471, 472, 474, 473, 475, 477, 478 |
| दक्षिण | ग्राम सलवन-745, 746, 747, 725, 748, 724, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 665, 664, 537, 535, 534, 502, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 491, 490, 489, 487, 486, 485 ग्राम प्रतापपुर-259, 225, 223, 222, 221, 212, 211, 210, 209, 208, 198, 196, 193, 192, 181 ग्राम लोहारपुर-167, 168, 169, 238, 240, 241, 253, 254, 255, 250, 246, 245, 125, 124, 122, 121, 120, 112, 102, 101, 80, 79, 78, 77, 14, 13, 12 ग्राम बरहटा (चकीया)-89, 92, 93, 94, 111, 108, 110, 136, 137, 142, 144, 145, 150, 149 |

अनुसूची-2

नगर पंचायत खखरेरू, जिला फतेहपुर में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र

| क्रम-संख्या | ग्रामों/राजस्व ग्रामों का नाम | सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | खखरेरू | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 2 | चचीड़ा | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 3 | सोथरापुर | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 4 | दरियामऊ | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 5 | हरदासपुर सराफान | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 6 | रक्षपालपुर | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 7 | सलवन | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 8 | प्रतापपुर | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 9 | लोहारपुर | सम्पूर्ण क्षेत्र |
| 10 | बरहटा (चकीया) | आंशिक क्षेत्र |

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2471/IX-1-2020-23T.A.-20, dated December 18, 2020:

No. 2471/IX-1-2020-23T.A.-20

Dated Lucknow, December 18, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

IN exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is specified in the Schedule-1 and Schedule-2 below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Khakhru in district Fatehpur.

SCHEDULE-1

Territorial Area of Nagar Panchayat Khakhru, district Fatehpur

| Direction | Gata no. and Name of Frontier Villages |
|-----------|--|
| East | Village Khakhru-1, 7, 680, 681, 687, 688, 689, 690, 691, 705, 706, 707, 708, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 732, 734, 736, 823, 824, 825, 826, 827, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378 |
| West | Village Chachida-165, 164, 163, 162, 160, 159, 30, 29, 29/629, 29, 26, 25, 24, 23, 13, 1, 2, 4, 5, 6, 65, 84, 85, 86, 421, 424, 425, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 448, 459, 462, 463, 469, 468, 464, 500, 509, 511, 512, 515, 516, 519, 520, 522, 523/641, 523, 527, 528, 529, 627, 628, 619, 614, 613, 612, 606, 605 Village Sothrapur-156, 159, 166, 167, 168 |
| North | Village Dariamau-1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 262, 263, 264, 265, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 286, 287, 288, 412, 414, 416, 417, 439, 440, 451, 452, 453, 458, 568, 567, 566, 565, 564, 563 Village Hardaspur Sarafan-134, 133, 132, 131, 125, 104, 101, 2, 1, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 71, 72, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 504, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 641, 661 Village Rakshpalpur-173, 174, 175, 189, 198, 210, 211, 212, 214, 217, 228, 229, 230, 255, 261, 262, 264, 265, 423, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 457, 469, 461, 460, 462, 463, 464, 466, 467, 470, 471, 472, 474, 473, 475, 477, 478 |
| South | Village Salwan-745, 746, 747, 725, 748, 724, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 665, 664, 537, 535, 534, 502, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 491, 490, 489, 487, 486, 485 Village Pratappur-259, 225, 223, 222, 221, 212, 211, 210, 209, 208, 198, 196, 193, 192, 181 |

| Direction | Gata no. and Name of Frontier Villages |
|-----------|---|
| | Village Loharpur-167, 168, 169, 238, 240, 241, 253, 254, 255, 250, 246, 245, 125, 124, 122, 121, 120, 112, 102, 101, 80, 79, 78, 77, 14, 13, 12 Village Barhata (Chakiya)-89, 92, 93, 94, 111, 108, 110, 136, 137, 142, 144, 145, 150, 149 |

SCHEDULE-2

Area of Nagar Panchayat Khakhreru in district Fatehpur

| Sl. No. | Name of Villages/Revenue Villages | Included Area |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | Khakhreru | Total Area |
| 2 | Chachida | Total Area |
| 3 | Sothrapur | Total Area |
| 4 | Dariamau | Total Area |
| 5 | Hardaspur Sarafan | Total Area |
| 6 | Rakshpalpur | Total Area |
| 7 | Salwan | Total Area |
| 8 | Pratappur | Total Area |
| 9 | Loharpur | Total Area |
| 10 | Barhata (Chakiya) | Partial Area |

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.